

**सिटी ने ब्रैम्पटन गोज ऑफ-ग्रिड शेड का पर्दा उठाया**

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (24 मई, 2022) – आज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने, ब्रैम्पटन गोज ऑफ-ग्रिड शेड (Brampton Grows Off-Grid Shed) का पर्दा उठाया। यह सिटी का पहला ऑर्गेनिक, सेल्फ-सस्टेनिंग और रीजेनरेटिव फूड सिस्टम है, जो ब्रैम्पटन में कई परिवारों के लिए फूड पैदा करेगा।

ब्रैम्पटन गोज ऑफ-ग्रिड शेड, ब्रैम्पटन पार्क्स (Brampton Parks) और ब्रैम्पटन फायर स्टेशन 212 (Brampton Fire Station 212) में स्थित है और इस गर्मी से शुरू करते हुए, इनके द्वारा इसकी हिमायत की जाएगी। यह शेड, नेचर हार्मनी (Nature Harmony) के द्वारा प्रदान किया गया है और इसका जीरो-एनर्जी ग्रीनहाउस सट्रक्चर है, जो फूड शेड से फूड पैदा करेगा और उस फूड को बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम (Backyard Garden Program) के हिस्से के तौर पर, ब्रैम्पटन में परिवारों को भोजन प्रदान करने के लिए रीजेनरेशन आउटरीच कम्युनिटी (Regeneration Outreach Community) को डोनेट किया जाएगा।

इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में इसका अपना ईकोसिस्टम शामिल है, जिसमें खाने योग्य ऑर्गेनिक फल और सब्जियां उगाने और खाने योग्य मछली के लिए भी, मिट्टी-आधारित कृषि, हाईड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स सिस्टमों का प्रयोग किया जाता है। इस शेड का, सोलर रिन्युएबल एनर्जी से पावर्ड, ज़ीरो-वेस्ट और कार्बन नेगेटिव है और यह अत्यधिक सर्दी में भी कायम रहने के लिए तैयार किया गया है। स्थिर इनडोर फार्म, शेड की भिन्न विशेषताओं को देखने हेतु, हर वर्ग के शामिल होने वाले लोगों के लिए एक इंटरैक्टिव शैक्षणिक अनुभव प्रदान करता है।

ब्रैम्पटन गोज ऑफ-ग्रिड शेड, [ब्रैम्पटन ग्रो ग्रीन एन्वायरनमेंटल मास्टर प्लान \(Brampton Grow Green Environmental Master Plan\)](#) के लक्ष्यों को आगे बढ़ाता है, जो सिटी के लिए एक अवसर के तौर पर, शहरी कृषि की मिसाल देता है।

### हवाले

“ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल ने, ब्रैम्पटन गोज ऑफ-ग्रिड शेड को मई 2021 में मंजूरी दी थी। ग्रीन सिटी होने के तौर पर, हमें ब्रैम्पटन में स्थिरता के नए मॉडल स्थापित करने पर गर्व है और हम ऑर्गेनिक फूड शेड की हिमायत करने के लिए उत्साहित हैं। नेचर हार्मनी में हमारे साझेदारों का धन्यवाद।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“शहरी कृषि में एक बड़ी उपलब्धि, ब्रैम्पटन गोज ऑफ-ग्रिड शेड अपनी खुद की ऊर्जा पैदा करता है, ज़ीरो-वेस्ट सिस्टम कायम रखता है, बारिश के पानी को एकत्र करता है और कार्बन को सोखता और ताज़ी ऑक्सीजन छोड़ता है। हम हमारी कम्युनिटी के लिए अधिक स्थिर भविष्य हेतु नेतृत्व करने के लिए उत्साहित हैं।”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन गोज ऑफ-ग्रिड शेड एक इनोवेटिव पहलकदमी है, जो ब्रैम्पटन में जरूरतमंद लोगों की सहायता करेगी। हम बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर, फूड शेड से हुई पैदावार को ब्रैम्पटन में परिवारों को भोजन प्रदान करने के लिए रीजेनरेशन आउटरीच कम्युनिटी को डोनेट करेंगे।”

- डग विलैन्स (Doug Whillans), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 2 और 6; चेयर, बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी, ब्रैम्पटन में फूड सिक्योरिटी और पर्यावरण संबंधी स्थिरता पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। फायर स्टेशन में हमारे स्टाफ को, ब्रैम्पटन गोज ऑफ-ग्रिड शेड की हिमायत के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी।”

- पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया  
[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)